

सोनपुर बबूरबानी में हरियाणा मेड नकली शराब बनाने का कारखाना पकड़ाया, एक गिरफ्तार



Publish Date:Thu, 07 Jan 2021 11:21 PM (IST)Author: Jagran

हरियाणा मेड के नाम पर नकली विदेशी शराब के बड़े कारोबार तथा यहां इसे बनाने वाले बड़े कारखाने का खुलासा किया गया है। सोनपुर पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई यहां के बबूरबानी गांव में की है।

संवाद सहयोगी, सोनपुर :

हरियाणा मेड के नाम पर नकली विदेशी शराब के बड़े कारोबार तथा यहां इसे बनाने वाले बड़े कारखाने का खुलासा किया गया है। सोनपुर पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई यहां के बबूरबानी गांव में की है। जहां से पुलिस ने इंपेरियल ब्लू, मैकडोवेल्ड, 8 पीएम समेत विभिन्न ब्रांडों के 5000 लीटर तैयार नकली अंग्रेजी शराब के साथ ही 5400 टेट्रा पैक तथा नकली बोतलों पर चिपकाये जाने वाले विदेशी शराब का पांच हजार से अधिक स्टिकर जब्त किया है। नकली शराब फैक्ट्री से पैकिंग मशीन, पैचिंग मशीन, कॉर्क तथा उत्पाद विभाग के बार कोडिंग वाले स्टिकर सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

एसडीपीओ अंजनी कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान पहले से फरार चल रहे एक अवैध शराब धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह नकली शराब बनाने का कारखाना बबूरबानी के तीन घरों में चल रहा था। कुछ सामान एक घर से तो कुछ समान दूसरे घर से बरामद किया गया है। यहां से बरामद स्टीकर पर सेल इन हरियाणा प्रिंट था। उन्होंने बताया कि धंधेबाज गिरोह देशी शराब में ही कलर मिलाकर के अंग्रेजी शराब के बोतलों में पैक किया करते थे। उन्होंने बताया कि यहां से बरामद कच्चे माल से 35 हजार से अधिक बोतल नकली शराब तैयार किए जा सकते थे। यहां से तैयार नकली शराब को बिहार के कई हिस्सों में पहुंचाया जा रहा था। इस पर हरियाणा मेड का लेवल इसलिए लगाए जा रहे थे ताकि इसे खरीदने वाले लोगों को हरियाणा से मंगाए गए अंग्रेजी शराब होने का भरोसा दिलाया जा सके।

छापेमारी में प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश प्रसाद, एसआई मयंकेश्वर महतो और विभा रानी के साथ क्यूआरटी टीम शामिल थे। इस मौके से पकड़े गए धंधेबाज गजेंद्र राय उर्फ चुल्लू राय के बारे में बताया कि इस पर पहले से ही दो केस दर्ज हैं, जिसमें वह फरार चल रहा था। मालूम हो कि इसके पहले भी पुलिस ने यहां दियारे में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब के कारखाने का खुलासा किया था। उस दौरान वहां से गैस सिलेंडर समेत विभिन्न ब्रांडों के नकली अंग्रेजी शराब भी बरामद किए गए थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब धंधेबाजों के हौसले पस्त नहीं होते दिख रहे हैं। वह धड़ल्ले से अपने कारोबार बढ़ाने में लगे हैं।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/vaishali-fake-wine-factory-caught-21248922.html>